

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 398]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई 2010—श्रावण 8, शक 1932

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
“निर्वाचन भवन”
58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462 .011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010

क्र. एफ. 65-04-2010-तीन-2356.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 22 के अनुसरण में, एतद्वारा, नगरपालिक निगम, उज्जैन, जिला उज्जैन के माह जुलाई, 2010 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति महापौर/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिक निगम का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् महापौर/ पार्षद	वार्ड क्रमांक (केवल पार्षद के मामले में) अंकों में शब्दों में		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिक निगम, उज्जैन जिला-उज्जैन.	महापौर पार्षद	— 1	— एक	रामेश्वर अखण्ड दीपमाला मालवीय पति श्री राजकुमार मालवीय.
		पार्षद	2	दो	भाई सोनू गेहलोत
		पार्षद	3	तीन	चौधरी पंकज
		पार्षद	4	चार	कमलेश सोबरनसिंह भदौरिया
		पार्षद	5	पांच	दिलीप सिंह परमार
		पार्षद	6	छः	शिवेन्द्र तिवारी
		पार्षद	7	सात	राजुबाई अम्बाशंकर
		पार्षद	8	आठ	भगवान खाण्डेगर
		पार्षद	9	नों	जगदीश पाँचाल
		पार्षद	10	दस	गब्बर भाटी (योगेश)
		पार्षद	11	ग्यारह	फातमा बी
		पार्षद	12	बारह	सतीश भावसार (गांधी) S/o श्री कन्हैयालाल भावसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	13	तेरह	अ. गम्फार पहलवान
		पार्षद	14	चौदह	फातिम मुस्तफा रौनक (फातेमा)
		पार्षद	15	पन्द्रह	औम अग्रवाल
		पार्षद	16	सोलह	आजाद रामचन्द्रजी यादव
		पार्षद	17	सत्रह	रूबी सुनील कछवाय
		पार्षद	18	अठारह	रविराय
		पार्षद	19	उन्नीस	श्रीमति आरती जीवन गुरू
		पार्षद	20	बीस	प्रकाश शर्मा
		पार्षद	21	इक्कीस	पं. गिरिश शास्त्री
		पार्षद	22	बाईस	श्रीमती माया राजेश त्रिवेदी
		पार्षद	23	तेईस	रजत मेहता
		पार्षद	24	चौबीस	सत्यनारायण चौहान
		पार्षद	25	पच्चीस	श्रीमती योगेश्वरी राठौर
		पार्षद	26	छब्बीस	मितू कक्कु पटेल
		पार्षद	27	सत्ताईस	नसीम सईद खान
		पार्षद	28	अट्ठाईस	सुनील गोयल
		पार्षद	29	उन्तीस	प्रिती रामेश्वर दुबे (रम्पू भैया)
		पार्षद	30	तीस	नज़माबी फिरोज पठान
		पार्षद	31	इकतीस	जहाँआरा
		पार्षद	32	बत्तीस	प्रेमकुमार यादव उर्फ गप्पू भैय्या
		पार्षद	33	तैंतीस	विष्णु सिंह आरोण्या (धारिया)
		पार्षद	34	चौतीस	कुंदनसिंह माली
		पार्षद	35	पैंतीस	डॉ. जुगलकिशोर राठौर
		पार्षद	36	छत्तीस	दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी
		पार्षद	37	सैंतीस	कमलेश बैरवा
		पार्षद	38	अड़तीस	बुद्धीप्रकाश सोनी
		पार्षद	39	उन्तालीस	जितेन्द्र तिलकर (नाना भय्या)
		पार्षद	40	चालीस	संतोषदेवी निर्मल
		पार्षद	41	इकतालीस	सुन्दरलाल मालवीय
		पार्षद	42	बयालीस	श्रीमती रजनी अशोक कोटवानी
		पार्षद	43	तैंतालीस	विनिशा अजय पटेल
		पार्षद	44	चवालीस	श्रीमती कलावती यादव
		पार्षद	45	पैंतालीस	राजेश जारवाल
		पार्षद	46	छियालीस	सन्तोष बाबुलाल यादव
		पार्षद	47	सैंतालीस	दुर्गा सुरेश बिलोटिया
		पार्षद	48	अड़तालीस	श्रीमति मीना विजय जोनवाल
		पार्षद	49	उनन्वास	रितुबाला सन्तोष व्यास
		पार्षद	50	पचास	सौ. अर्चना काले
		पार्षद	51	इक्यावन	श्रीमति सुरेखा दिलीप भार्गव
		पार्षद	52	बावन	निर्मला रमेश विश्वकर्मा
		पार्षद	53	तिरपन	दीपिका बीनू कुशवाह
		पार्षद	54	चौवन	सुगन बाबूलाल बाघेला

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.